

दिनांक : _____

बैंक का नाम :

जिला :

नोडल बैंक अधिकारी का नाम व पता :

संदर्भ संख्या

पुलिस निरीक्षक

..... पुलिस स्टेशन

..... माह की समेकित मासिक रिपोर्ट

जाली नोटों का विवरण

| पहचान करने की तारीख | शाखा मुद्रा तिजोरी का नाम | नोट प्रस्तुत करनेवाले व्यक्ति के ब्यौरे | मूल्यवर्ग / पीसेस / शृंखला संख्या | सुरक्षा विशेषताएं जिनका उल्लंघन किया गया है | एनसीआरबी पोर्टल द्वारा जनरेट यूनिक संदर्भ संख्या (यूआरएन) |
|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

4. जाली नोट सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न हैं।

5. कृपया प्राप्त सूचना दें।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(आधिकारिक मुहर)

अनुलग्नक :